

February 5th, 2024

The Corporate Relationship Department

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The General Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai - 400 051

Symbol/Scrip Code: (BSE)530555/(NSE) PARACABLES

Sub: Disclosure pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 on Publication of Notice of Extra Ordinary General Meeting of the Company.

Dear Sir,

We wish to inform you that the Board of Directors of the Company at its meeting held on 03.02.2024 has approved the Un-Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) for the quarter and nine months ended on 31.12.2023.

Pursuant to regulation 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith newspaper clippings of Un-Audited Financial results for the Quarter and Nine months ended 31.12.2023 published in 'Financial Express' & 'Jansatta' on 05.02.2024.

Kindly take the above document and / or information on your record.

Thanking you,

Yours sincerely,

for Paramount Communications Limited

Rashi Goel

Company Secretary & Compliance Officer

Paramount Communications Ltd
Paramount House
KH - 433, Maulsari Avenue,
Westend Greens, Rangpuri,
New Delhi - 110037, India
t:+91 11 45618800
pcl@paramountcables.com
www.paramountcables.com
CIN: L74899DL1994PLC061295

NAME OF THE

2. 10149 Mr. FATEH SINGH

FINANCIAL EXPRESS

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. IndiaShelter

'Home Loans REGD: OFFICE:- Plot-15,6th Floor, Sec-44, Institutional Area, Gurugram, Haryana-122002 BRANCH OFFICE: 1ST FLOOR, SCF 12 MAIN MARKET, SECTOR 14, SONIPAT - 131001, SHOP NO. S9, FIRST FLOOR, LAJPAT NAGAR, GT ROAD, NEXT TO PNB BANK, PANIPAT- 132103

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY

Whereas, The Undersigned Being The Authorised Officer Of The India Shelter Finance And Corporation Ltd, Under The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assests And Enforcement (security) Interest Act, 2002 And In Exercise Of Power Conferred Under Section 13(12) Read With Rule 3 Of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002, issued A Demand Notice On The Date Noted Against The Account As Mentioned Hereinafter, Calling Upon The Borrower And Also The Owner Of The Property/surety To Repay The Amount Within 60 Days From The Date Of The Said Notice. Whereas The Owner Of The Property And The Other Having Failed To Repay The Amount, Notice Is Hereby Given To The Under Noted Borrowers And The Public In General That The Undersigned Has Taken Possession Of The Property/les Described Herein Below In Exercise Of The Powers Conferred On Him/her Under Section 13(4) Of The Said Act Read With Rules 8 & 9 Of The Said Rules On The Dates Mentioned Against Each Account. Now, The Borrower In Particular And The Public In General Is Hereby Cautioned Not To Deal With The Property/ies And Any Dealing With The Property/ies Will Be Subject To The Charge Of India Shelter Finance Corporation Ltd For An-Amount Mentioned As Below And Interest Thereon, Costs, Etc.

DESCRIPTION OF THE CHARGED DT. OF DEMAND NOTICE.

BORROWER/GUARANTOR (OWNER OF THE PROPERTY) & LOAN ACCOUNT NUMBER	/MORTGAGED PROPERTY(ALL THE PART & PARCEL OF THE PROPERTY CONSISTING OF)	AMOUNT DUE AS ON DATE OF DEMAND NOTICE	POSSESSIO
MR./ MRS. VANDANA MR./ MRS. Jagmender Singh Both At: Vill - Gohana Sonipat Haryana Haryana 131301 Haryana, Also At: Plot 100 Marla Being 1/656 Marla Being 3/632 31K-12Mkhewat No. 3753, Khata No. 4152 And Khewat No. 3867, Khata No. 4274 Outside Mc Moja Gohana Gohana Distt.Sonipat-131301 Haryana LOAN ACCOUNT NO: HL11CHLONS000005042066	All Piece And Parcel Of All That Piece And Parcel Of Property Bearing Plot 100 Sq.Yd I,E 3.5 Marla Being 0K-0.5 Marla Being 1/656 Share Of And 3 Marla Being 3/632 Share Of 31K-12Mkhewat No. 3753, Khata No. 4152 And Khewat No. 3867, Khata No. 4274Outside Mc Moja Gohana Gohana Distt. Sonipat Sonipat 131301". BOUNDARY:- EAST-Plot of Other, WEST- Plot of Others, NORTH- Plot of Other, SOUTH- Street.	Demand Notice 14-Oct-2023 Rs. 834167/- (Rupees Eight Lakh Thirty Four Thousand One Hundred Sixty Seven Only) Due As On 12-Oct-2023 Together With Interest From 13-Oct- 2023 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	POSSESSIO
MR./ MRS. SUNITA W/O DHARAMBIR MR./ MRS. DHARAMBIR Both At: Ward No 21 jatal Road Near LSBT School Wall Gali - Haryana- 132103 Panipat- Haryana LOAN ACCOUNT NO: LA11CLLONS000005026866	All Piece And Parcel All Piece And Parcel Of Sale Deed 4128 Dated 10/07/2019, Khewat No 15, Khatoni No 15 Sondhapur, Khasra No 31//17(7-14) 23(8-0), 24(8-0), Total Land Admeasuring 127.5 Sq Yrds, Panipat- Haryana-132103, BOUNDARY:- East: Property Of Sh. Sultan, West: Property Of Sh. Satyawan, North: Property Of Sh. Omparkash, South: Street	Demand Notice 12-Jan-23 ₹ 949618.5/- (Rupees Nine Lac Forty Nine Thousand Six Hundred Eighteen and Fifty Paise) as of 10-Jan-23 Together With Interest From 11-Jan-23 And Other Charges And Cost Till The Date Of The Payment.	POSSESSIO

PLACE: DELHI /NCR DATE: 05.02.2024 FOR INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD (AUTHORIZED OFFICER) FOR ANY QUERY PLEASE CONTACT MR. SUDHIR TOMAR MOB-+91 98184 60101

TATA

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD.

Registered Address: 11th Floor, Tower A. Peninsula Business Park. Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Branch Address: TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024.

NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY (Under Rule 8(6) read with Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) and Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower and/ Co- Borrower, or their legal heirs/representatives (Borrowers) in particular that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (TCHFL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of TCHFL, will be sold on 21-02-2024 on "As is where is" & "As is what is" and "Whatever there is" and without any recourse basis", for recovery of outstanding dues from below mentioned Borrower and Co-Borrowers. The Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said secured asset / property shall be sold by E- Auction at 2.00 P.M. on the said 21-02-2024. The sealed envelope containing Demand Draft of EMD for participating in E- Auction shall be submitted to the Authorised Officer of the TCHFL on or before 20-02-2024 till 5.00 PM at Branch address TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED, B-36, 1St & 2Nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2, Above Hdfc Bank, New Delhi 110024.

The sale of the Secured Asset/Immovable Property will be on "as is where condition is" as per brief particulars described herein below

Sr. No	A/c. No and	megger rivirger a megger	Amount as per Demand Notice	Reserve Price	Earnest Money	Type of possession
1.	1010 8300	Mr. ARUN MITTAL Mrs. SHIKHA MITTAL	Rs. 20,67,814/- (Rupees Twenty Lakh Sixty Seven Thousand Eight Hundred Fourteen Only) 15-05-2021	Rs. 24,90,000/- (Rupees Twenty Four Lakh Ninety Thousand Only)	Rs. 2,49,000/- (Rupees Two Lakh Forty Nine Thousand Only)	Physical

Description of the Immovable Property: All That Residential Property- FLAT NO. 2201, 22ND FLOOR, TOWER-TRANCE, RHYTHM CCOUNTY PLOT NO. GH-16E, SECTOR-1, GREATER NOIDA. 201301, UTTAR PRADESH, MEASURING AREA 1060 SQ. FT.

Rs. 24,91,985/- (Rupees Twenty

	937	Mrs. BALJEET KAUR	Nine Hundred Eighty Five Only)	30,00,000/- (Rupees Thirty	3,00,000/- (Rupees Three Lakh Only)	541
	8 8	WHITE STATE	14-05-2021	Lakh Only)	X	
2.33	The second second		Property: All That Residential Property-			TRANCE a

RHYTHM CCOUNTY GH-16E, SEC-1, GREATER NOIDA-201308 MEASURING AREA 1280 SQ FT

3.	10285 074	Mr. Mohd Irfan S/o Mr. Rahat Ali Mrs. Kishwar Jahan W/o Mr. Mohd Irfan	Rs. 41,62,289/- (Rupees Forty One Lakh Sixty Two Thousand Two Hundred Eighty Nine Only) 24-01-2023	Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakh Only)	Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lakh Only)	Physical
----	--------------	---	---	--	---	----------

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the All Piece & Parcels of Built up free hold Flat bearing no. B-14/3/S-2, on Second Floor, with roof rights, area measuring 70 Sq. Yards. i.e. 58.53 Sq. Mtrs under M.I.G. Category, One Dwelling Unit As is Where is, With the Common Rights of Stairs, Passage and Other Common Facilities, bearing Property No. B-14/3, Built on Part of Plot no. B-14, Out of Khasra No. 1076/5//2/272, Situated at Dilshad Extension No. 01, now known as Dilshad Colony in the Area of Village Jhilmil Tahirpur, Illaga Shahdara, Delhi together with the undivided proportionate freehold rights of the land with all common amenities mentioned in Sale Deed. Bounded :- East :- Road, West :- Part of Plot No. B-14, North :- Plot No. B-13, South :- Part of Plot No. B-14 4 TCHHF Mr. Kalu Ram Dhingra Rs. 26.32,860 /- (Rupees Twenty Six Lakh Thirty Two

039900 010006 7169 & TCHHF 035000 010000 7590	S/o Mr. Kalu Ram	Thousand Eight Hundred Sixty Only) is due and payable by you under the loan account TCHHF0399000100067169 and an amount of Rs. 1,97,87,252 /- (Rupees One Crore Ninety Seven Lakh Eighty Seven Thousand Two Hundred Fifty Two Only) is due and payable under the loan account no TCHHF0350000100007590 by you, totaling to Rs. 2,24,20,112/- (Rupees Two Crore Twenty Four Lakh Twenty Thousand One Hundred Twelve Only).	25,00,000/- (Rupees Twenty Five Lakh Only)	
		erty: All that niece & narrels of Entire Builtun Second		

Description of the Immovable Property: All that piece & parcels of Entire Builtup Second Floor (Without Roof Rights) of Residentia House bearing No. 92, Admeasuring 155.50 Sq. Mtrs., With freehold proportionate rights in the land beneath, Situated at Shakti Vihar, Pitampura, Near Rashmi Apartments, Saraswati Vihar, North - West Delhi, New Delhi - 110001, with all common amenities mentioned in Sale Deed, Bounded :- East :- House No. 93, West :- House No 91, North :- Service Lane, South : - Road, Note ; - SA Filed by the Borrower against TCHFL (SA/510/2023) is pending before DRT-1, Delhi, No stay order is passed against TCHFL in the said case

5.	TCHIN 039900 010008 2376 & 105271 16	(Late) Mr. Sunil Biswakarma S/o Mr. Bishnu Biswakarma - Through his legal heirs. Mrs. Maya Biswakarma W/o Mr. Bishnu Biswakarma Mrs. Swastika Biswakarma W/o Mr. Sunil Biswakarma - Legal Heir Mr. Vardhan Biswakarma S/o Late Mr. Sunil Biswakarma - Legal Heir	Rs. 2026995/- (Rupees Twenty Lakh Twenty-Six Thousand Nine Hundred Ninety-Five Only) is due and payable by you under Loan Account No. 10527116 and an amount of Rs. 281417/- (Rupees Two Lakh Eighty-One Thousand Four Hundred Seventeen Only) is due and payable by you under Loan Account No. TCHIN0399000100082376 i.e. totalling to Rs. 2308412/- (Rs. Twenty-Three Lakh Eight Thousand Four Hundred Twelve Only)/-	Rs. 19,75,000/- (Rupees Nineteen Lakh Seventy Five Thousand Only)	Rs. 1,97,500/- (Rupees One Lakh Ninety Seven Thousand Five Hundred Only)	Physical
----	---	--	---	--	--	----------

Description of the Immovable Property: All that piece and parcel of the Built Up Upper Ground Floor (Front Side) of Property bearing No. 17, without roof rights, Area Admeasuring 43.4772 Sq. Mtrs. (52 Sq. Yds.), Comprised in Khasra No. 299, Situated in Revenue Estate of Village Nasirpur, Locality known as Sagarpur West, New Delhi - 110046, with all common amenities written in the Sale Deed. Bounded: - East: - Gali 8' Wide, West: - Road 19' Wide, North: - Portion of Plot No. 17, South: - Other's Property Note ; - Consumer Complaint Filed by the Borrower against TCHFL. (CC/108/2022) is pending before DCDRF South West (Dwarka). No

stay order is passed against TCHFL in the said case At the Auction, the public generally is invited to submit their bid(s) personally. The Borrower(s)/Co-Borrower (s) are hereby given last

chance to pay the total dues with further interest within 15 days from the date of publication of this notice, failing which the Immovable Property will be sold as per schedule. The E auction will be stopped if, amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the Authorised Officer or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or

attempt to acquire any interest in the Immovable Property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further

conditions: The E-auction will take place through portal https://DisposalHub.com on 21-02-2024 between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each.

Terms and Condition: 1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the Immovable Property shall at once again be put up to auction subject to the discretion of the Authorised Officer. 2. The Immovable Property shall not be sold below the Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand Only). 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." Payable at Branch address. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders after auction. For payment of EMD through NEFT/RTGS/IMPS, kindly contact Authorised Officer. 5. The highest bidder shall be declared as successful bidder provided always that he/she is legally qualified to bid and provided further that the bid amount is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the Authorised Officer to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6, For reasons recorded, it shall be in the discretion of the Authorised Officer to adjourn/discontinue the sale. 7. Inspection of the Immovable Property can be done on 12-02-2024 between 11 AM to 5.00 PM with prior appointment. 8. The person declared as a successful bidder shall, immediately after such declaration, deposit twenty-five per cent of the amount of purchase money/bid which would include EMD amount to the Authorised Officer within 24Hrs and in default of such deposit, the property shall forthwith be put to fresh auction/Sale by private treaty, 9. In case the initial deposit is made as above, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the Authorised Officer on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale of the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. 10. In the event of default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/Sale by private treaty. The deposit including EMD shall stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD and the defaulting purchaser shall lose all claims to the property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD, to which the property is liable; as per table above. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: as per table above. The Intending Bidder is advised to make their own independent inquiries regarding encumbrances on the property including statutory liabilities arears of property tax, electricity etc. 12. For any other details or for procedure online training on e-auction the prospective bidders may contact the Service Provider, M/s NexXen Solutions Private Limited, Address: #203, 2nd Floor, Shree Shyam Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram – 122 006 through its Mobile No. +91 97100 29933, +91 98100 29926, Tel. No. +91 124 4 233 933, Email ID: CSD@disposalhub.com or Manish Bansal, Email id Manish.Bansal@tatacapital.com Authorised Officer Mobile No 8588983696. Please send your query on WhatsApp Number - 9999078669. 13. TDS of 1% will be applicable and payable by the highest bidder over the highest declared bid amount. The payment needs to be deposited by highest bidder in the PAN of the owner/borrower(s) and the copy of the challan shall be submitted to our company, 14. Please refer to the below link provided in secured creditor's website http://surl.li/pvecb for the above details. 15. Kindly also visit the link: https://www.tatacapital.com/property-disposal.html

Please Note - TCHFL has not engaged any broker/agent apart from the mentioned auctioning partner for sale/auction of this property. Interested parties should only contact the undersigned or the Authorised officer for all queries and enquiry in this matter.

Sd/- Authorised Officer, Tata Capital Housing Finance Ltd.

Notice of Loss of Share Certificate

NOTICE is hereby given that the following Share Certificates issued by STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED ("The Company") are stated to have been lost or misplaced or stolen and WE, the registered holders thereof have applied to the company for the issue of Duplicate Certificates.

No.	Share Cert. No.	Distinctive No. (From - To)	No. Of Shares	Name of Shareholders KRISHNA
00002889	00017226 - 00017266	2722501 - 2726600	4100	KUMAR & SHASHI PRABHA KUMAR

The public is hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above Share Certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said Share Certificates should lodge such claim(s) with the Company at its registered office at the address STANDARD CAPITAL MARKETS LIMITED, G-17, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi, Delhi-110034 within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue of duplicate Share Certificates.



DATE OF

Physical

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101, 102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity. Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. **DEMAND NOTICE** Under The Provisions of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security InterestAct, 2002 ("The Act") and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("The Rules") The undersigned being the authorized officer of SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (formerly Fullerton India Credit Company Limited) (SMFG India Credit) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the Act read with the Rule 3, issued Demand Notice(s) under Section 13(2) of the Act, calling upon the following borrower(s) to repay the amount mentioned in the respective notice(s) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The undersigned reasonably believes that borrower(s) is/are avoiding the service of the demand notice(s), therefore the service of notice is being effected by affixation and publication as per Rules. The contents of demand notice(s) are extracted herein below: Demand Notice Date & Amount Name of the Borrower(s)

Anand Prakash Satsangi. 16th January, 2024. Rs. 32,14,901/- [Rupees Thirty Two Lakhs Forteen Thousand Nine Hundred Nihal Devi Satsangi. 3. Raina Satsangi. 4. Darab Singh Satsangi. and One Only] As on 16th January, 2024. Description Of Immovable Property / Properties Mortgaged

ALL THAT PROPERTY PIECE AND PARCEL PROPERTY NO. 48/234 ADMEASURING 130 SQ YARDS OR 108.69 SQ MTRS SITUATED AT MAUZA KHATAINA LOHAMANDI WARD CITY AGRA BOUNDED BY BOUNDARIES AS UNDER: EAST-PROPERTY OF BHAIRO, WEST-RASTA 10.5 FT WIDE AND EXIT, NORTH-LAND OF BHOLA, SOUTH-GALI 6.5 FT WIDE AND EXIT.

The borrower(s) are hereby advised to comply with the demand notice(s) and to pay the demand amount mentioned therein and hereinabove within 60 days from the date of this publication together with applicable interest, additional interest, bounce charges, cost and expenses till the date of ealization of payment. The borrower(s) may note that SMFG India Credit is a secured creditor and the loan facility availed by the Borrower(s) is a secured debt against the immovable property/properties being the secured asset(s) mortgaged by the borrower(s). In the event borrower(s) are failed to discharge their liabilities in full within the stipulated time, SMFG India Credit shall be entitled to exercise all the rights under Section 13(4) of the Act to take possession of the secured asset(s) including but not limited to transfer the same by way of sale or by invoking any other emedy available under the Act and the Rules thereunder and realize payment. SMFG India Credit is also empowered to ATTACH AND/OR SEAL the secured asset(s) before enforcing the right to sale or transfer. Subsequent to the Sale of the secured asset(s), SMFG India Credit also has a right to initiate separate legal proceedings to recover the balance dues, in case the value of the mortgaged properties is insufficient to cover the dues payable to the SMFG India Credit. This remedy is in addition and independent of all the other remedies available to SMFG India Credit under any other law. The attention of the borrower(s) is invited to Section 13(8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets and further to Section 13(13) of the Act, whereby the borrower(s) are restrained/prohibited from disposing of or dealing with the secured asset(s) or transferring by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured asset(s). without prior written consent of SMFG India Credit and non-compliance with the above is an offence punishable under Section 29 of the said Act. The copy of the demand notice is available with the undersigned and the borrower(s) may, if they so desire, can collect the same from the undersigned on any working day during normal office hours.

Place: Uttar Pradesh, Agra Date: 05.02.2024 SD/-, Authorised Officer. SMFG India Credit Company Limited (formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.) MOTILAL OSWAL

HOME LOANS

Motilal Oswal Home Finance Limited

CIN Number :- U65923MH2013PLC248741 Corporate Office: Motilal Oswal Tower, Rahimtullah Sayani Road, Opposite ST Depot, Prabhadevi, Mumbai-400025. Email: hfquery@motilaloaswal.com. Branch Office -D-31, 1st Floor, Acharya Niketan, Mayur Vihar, Phase I, New Delhi - 110091

Branch Office -Office No.151, 1st Floor, Om Shubham Tower, Near Neelam Chowk, Faridabad - 121001, Haryana Contact No.:- SUBHASH - DL NCR - 9712997679 & PARMAR DINESHKUMAR DUDHABHAI - 9326483978.

PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION CUM SALE -Auction Sale Notice of 30 Days for Sale of immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction

Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provison to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described

immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of Motilal Oswal Home Finance Limited (Earlier Known as Aspire Home Finance Corporation limited) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date and time mentioned herein below, for recovery of the dues mentioned herein below and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to Motilal Oswal Home Finance Limited (Earlier Known as Aspire Home Finance Corporation limited) Secured Creditor from the Borrowers and Guarantor(s) mentioned herein below. The reserve price, Earnest Money Deposit (EMD) and last date of EMD deposit is also mentioned herein below:

Borrower(s) / Guarantor(s) / Loan Account	Demand Notice Date and Amount	,	Reserve Price, EMD & Last Date of Submission of EMD	Date and time of E-Auction	
LAN: LXMOFARIDA721- 220625538 Branch: Faridabad Borrower: ANUJ CHAUHAN Co-Borrower: RAJNI SINGH	18-09-2023 for Rs: 1253766/- (Rupees Twelve Lac Fifty Three Thousand Seven Hundred Sixty Six Only)	Khasra No -308, Village- Sadullahbad Preet Vihar, Tehsil- Loni, Dist- Ghaziabad, Uttar Pradesh 201102	Reserve Price: Rs.1250000/- (Twelve Lakh Fifty Thousand Only) EMD: Rs. 125000/- (One Lakh Twenty Five Thousand Only) Last date of EMD Deposit :05-03- 2024	Date: 06-03-2024 11:00 Am to 5:00 Pm (with unlimited extensions of 5 minute each)	
LAN: LXMOMAYURV721- 220621283 Branch: MAYURVIHAR Borrower: KRISHNA MOHAN Co-Borrower: PARMILA DEVI	for Rs: 2249971/- (Rupees Twenty Two Lac Forty Nine Thousand Nine Hundred Seventy One	Flat No. Gf-3 (Hig), On Ground Floor, Back Side Without Roof Rights, Plot No. A-16 Out Of Khasra No. 1277, Situated Residential Colony, Slf Ved Vihar, Village Sadullabad Pargana, Loni Tehsil & District Ghaziabad,	(Eighteen Lakh Only) EMD: Rs. 180000/- (One Lakh Eighty Thousand Only)	Date: 06-03-2024 11:00 Am to 5:00 Pm (with unlimited extensions of 5 minute	
	Only)	Ghaziabad, Uttar Pradesh 201001.	Last date of EMD Deposit :05-03- 2024	each)	
LAN: LXMOMAYURV922- 230649590 Branch: MAYURVIHAR Borrower: BHARAT	08-06-2023 for Rs: 915124/- (Rupees Nine Lac Fifteen	Flat No.3,Tower-C, Ground Floor, Nirmal Ashray Society, Plo No.19,Admeasuring 450 Sq.Mtrs, Khasra No.324, Situated At-Shivam Garden	Rs.450000/- (Four Lakh Fifty Thousand Only)	Date: 06-03-2024 11:00 Am to 5:00	
SINGH	Thousand One Hundred Twenty Four Only)	Colony, Village- Achheja Pargana And Tehsil-Dadri, Dist Gautam Budh Nagar,	EMD: Rs. 45000/-(Forty Five Thousand Only)	Pm (with unlimited extensions of 5 minute	
	. ou. omy,	Near Keshavpuram Real Estate, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh- 201310.	Last date of EMD Deposit :05-03- 2024	each)	
LAN: LXMOFARIDA722- 230660167 Branch: Faridabad	18-09-2023 for Rs: 3070468/- (Rupees Thirty	Property Bearing No. 338, Second And Third Floor With Roof Rights, Sector-2, Rohini, Delhi 110085		Date: 06-03-2024 11:00 Am to 5:00	
Borrower: ANIL GUPTA Co-Borrower: SEEMA GUPTA	Lac Seventy Thousand Four Hundred Sixty Eight Only)		EMD: Rs. 310000/-(Three Lakh Ten Thousand Only)	Pm (with unlimited extensions of 5 minute each)	
Terms and Conditions	of E. Austis		Last date of EMD Deposit :05-03- 2024	333.17	

Terms and Conditions of E- Auction:

 The Auction is conducted as per the further Terms and Conditions of the Bid document and as per the procedure set out therein. Bidders may go through the website of Motilal Oswal Home Finance Limited (Earlier Known as Aspire Home Finance Corporation limited), www.motilaloswalhfl.com and website of our Sales & Marketing and e-Auction Service Provider, https://auctions.inventon.in for bid documents, the details of the secured asset put up for e-Auction and the Bid Form which will be submitted online;

Place : Delhi Date: 05.02.2024

Authorized Officer (Motilal Oswal Home Finance Limited)

Paramount Communications Limited Read. Office: KH-433. Maulsari Avenue, Westend Greens, Rangpuri, New Delhi-110037

Phone: 91-11-45618800; Fax: 91-11-25893719-20; Web: www.paramountcables.com CIN: L74899DL1994PLC061295

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31⁵¹ DECEMBER, 2023 (Rs. in Lakhs except per share data)

STANDALONE

CONSOLIDATED **Particulars Quarter Ended** Nine Months Ended | Year Ended Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended **31.12.2023** 30.09.2023 31.12.2022 **31.12.2023** 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 **31.12.2023** 31.12.2022 **31.03.2023** Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited Audited 79,646.65 Total income from operations 27,534.18 25,028.20 21,808.93 73,616.82 59,438.84 79,646.65 28,425.17 25,243.51 21,808.93 74,723.12 59,438.84 1,944.92 1,431.77 5,588.37 3,396.66 4,776.75 2,205.90 1,950.12 1,431.7 5,609.42 3,396.66 4,776.75 Profit/(Loss) from ordinary activities after finance costs 2,190.05 but before exceptional items 4,776.75 Profit/(Loss) from ordinary activities before tax 2,190.05 1,944.92 1,431.77 5,588.37 3,396.66 4,776.75 2,205.90 1,950.12 1,431.7 5,609.42 3,396.66 5,588.37 Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax 2,190.05 1,944.92 1,431.77 3,396.66 4,776.75 2,202.69 1,948.92 1,431.77 5,605.01 3,396.66 4,776.75 8.87 8.87 8.87 14.64 26.61 43.92 35.49 8.87 14.64 26.61 43.92 35.49 Other comprehensive income/(loss) 1,446.41 3,440.58 Total Comprehensive Income (Comprising Profit/ (Loss) 2,198.92 1,953.79 1,446.41 5,614.98 3,440.58 4,812.24 2,211.56 1,957.79 5,631.62 4,812.24 and other comprehensive income for the period) Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- Per Equity 5,592.20 4,773.70 3,883.68 5,592.20 3,883.68 3,883.68 5,592.20 3,883.68 5,592.20 3,883.68 3,883.68 4,773.70 Other Equity Excluding revaluation Reserve 25,624.50 25,624.50 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (Not Annualised): 0.80 0.72 2.38 1.73 2.40 0.81 0.86 0.72 2.39 1.73 2.40 2.39 b) Diluted 0.80 0.86 0.72 2.38 2.40 0.81 0.72 1.73 2.40 1.73 0.86

The above is an extract of the detailed format of the unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2023 filed with the Stock Exchange under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly unaudited Financial Results are available on company's website at www.paramountcables.com and the stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

By and on behalf of the Board For PARAMOUNT COMMUNICATIONS LTD.

Sanjay Aggarwal

Chairman & CEO

Place: New Delhi Date: 03.02.2024

DIN: 00001788

THE NAINITAL BANK LIMITED Ramnagar Road, Kashipur, U.S. Nagar- 244713, Uttarakhand Phone No.: 05947-274060 E-mail:kashipur@nainitalbank.co.in

E-AUCTION NOTICE

SALE OF ASSETS OF THROUGH ONLINE E-AUCTION UNDER SARFAESI ACT 2002

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8 (6) & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

WHEREAS, the undersigned being the Authorized officer of Nainital Bank under The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 15.11.2022 calling upon the borrower's M/s Bansal Agro Products and guaranters namely 1. Shri Arvind Kumar Agarwal S/o Shri Satya Prakash Agarwal, 2. Smt. Anita Agarwal W/o Arvind Kumar Agarwal to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 5,27,02,961.12 (Rupees Five Crore Twenty-Seven Lakh Two Thousand Nine Hundred Sixty-One and Paise Twelve only) plus interest and other expenses with effect from 16/11/2022 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

WHEREAS the Borrowers having failed to repay the amount/dues in full to the Bank as called for in the said Demand Notice, the Bank has taken physical possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 & 9 of the said Rules on 24/03/2023. With the right to sell the same for realization of Bank's dues.

The undersigned in exercise of powers conferred under Section 13(4) proposes to realize the Bank's dues by sale of undermentioned property(ies). ACCORDINGLY, the Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged to the Secured Creditor, the constructive/physical

possession of which has been taken by the Authorised Officer of Nainital Bank the Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "Whatever there is" and "No recourse" basis through E- Auction for recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost and expenses being due to Nainital Bank viz. Secured Creditor.

Date of Notice U/s 13(2), Description of Property Name and Address of

It is hereby informed you that we are going to conduct public E-Auction through website https://sarfaesi.auctiontiger.net Status of Account No. to EMD submission Property Reserve price

Name and Address of	Description of Property	Date of Notice O/3 13(2),	Common or	CONTRACTOR INC. 10	million 0.00011110.01011	Linheith	TOTAL PLANTS					
Borrower(s)/	\$1 0.00 	Date of Possession Notice U/s 13 (4) & Total dues less recovery if any.	possession	Deposit EMD/	date and time &	inspection	EMD					
Guarantor(s)				BID amount.	E-Auction date & Time	date & time	Bid Increase amount					
	1) Equitable mortgage of property measuring 0.576	15.11.2022	Physical	Account No.	Last Date of EMD	ᇤ	Rs. 405.00 Lakh					
(Partnership Firm) (Borrower) Situated at: Village Daduwala, Jaspur City, Opposite	Ltd. Tehsil Jaspur, Nagar (Uttarakhand), Woo Mayank Agarwal Paspur, District Udham Agarwal Mayank Agarwal Paspur, District Udham Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Mayank Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Mayank Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Jaspur, District Udham Agarwal Moo Arvind Kumar Agarwal So Shri Wal Woo Arvind Kumar Agarwal So Shri Wal (Guarantor) Roo Arvind Kumar Agarwal So Shri Wal Woo Arvind Kumar Agarwal Moo So Shri Wal Woo Arvind Kumar Agarwal Woo Arvind Kumar Agar	24.03.2023		006420920000025 IFSC Code:	22.02.2024 up to	3.00 p	(Rupees Four Crores Five Lakh Only)					
				Rs. 5,27,02,961.12		NTBL0KAS006	4.00 pm	02.2 n to	20			
		(Rupees Five Crore Twenty Seven Lakh Two Thousand Nine Hundred Sixty One and Paise Twelve only) Plus interest		Or through Demand Draft in favour of Nainital Bank to be deposited with	E Auction on: 23.02.2024 from 11:00 AM to 1:00 PM (with unlimited	21.02.2024 10.00 am to 3.00 p	Rs 40.50 Lakh (Rupees Forty Lakh Lakh Fifty Thousand Only)					
 Legal heir of Deceased Partner Mr. Mayank Agarwal and Natural guardian of Nimish Agarwal minor Legal Heir of deceased partner Mr. Mayank Agarwal, 		and other expenses, less recovery.		Bank's Kashipur Branch	extension of 5 min each)	W.	Rs. 1.00 Lakh (Rupees One Lakh Only)					
Natural Guardian of Aadi Agarwal minor legal heir of deceased partner Mr. Mayank Agarwal, 4). Shri Arvind Kumar Agarwal S/o Shri		Equitable mortgage of property measuring 0.345 Hectare, Situated at Village Ahmadnagar, Jaspur, Tehsil Jaspur, Dist Udham, Singh Nagar, (U. K.). Bounded by: East – Land of Jogendra Singh, West – Land of Arvind Kumar and Others, North – 12ft wide	Equitable mortgage of property measuring 0.345 Hectare, Situated at Village Ahmadnagar, Jaspur,	Equitable mortgage of property measuring 0.345 Hectare, Situated at Village Ahmadnagar, Jaspur,	Equitable mortgage of property measuring 0.345 Hectare, Situated at Village Ahmadnagar, Jaspur,	Equitable mortgage of property measuring 0.345 Hectare, Situated at Village Ahmadnagar, Jaspur,						2. Rs. 45.00 Lakh (Rupees Forty Five Lakh Only)
Satya Prakash Agarwal (Guarantor) R/o House No. 40, Bazar Bhoop Singh, Ward No. 8, Jaspur, Tehsil Jaspur, District Udham Singh Nagar (Uttarakhand) 244712,							8	Rs. 4.50 Lakh (Rupees Four Lakh Fifty Thousand Only)				
5). Smt. Anita Agarwal W/o Arvind Kumar Agarwal (Guarantor) R/o House No. 40, Bazar Bhoop Singh, Ward No. 8, Jaspur, Tehsil Jaspur, Distrcit Udham Singh Nagar (Uttarakhand) 244712						50	Rs. 1.00 Lakh (Rupees One Lakh Only)					

THIS IS A STATUTORY 15 DAYS SALE NOTICE TO BORROWER/GUARANTOR/ MORTGAGOR UNDER SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

proceeding and are also advised to contact Bank's Service Provider e-Procurement Technologies Ltd. Mr. Ram Sharma, Contact Number 8000023297 and e-mail of ramprasad@auctiontiger.net.

financialexp.ep

Place: Delhi Date:- 05-02-2024

Date: 05.02.2024 Place: Kashipur

New Delhi

All Interested participants / bidders are requested to visit the website https://sarfaesi.auctiontiger.net & www.nainitalbank.co.in (Banksite) for further details including Terms & Conditions, to take part in e-auction sale

Authorized Officer, THE NAINITAL BANK LIMITED

"फॉर्म नं. यूआरसी—2" अध्याय XXI के भाग I के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में सूचना का विज्ञापन (कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 374(ख) और (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में)

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, कंपनी पंजीयक, नई दिल्ली को इस संबंध में पन्द्रह दिन लेकिन इसके बाद तीस दिन की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव किया गया है कि राकेश बंसल वेन्वर्स एलएलपी को कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के माग I के अंतर्गत शेयरों द्वारा कम्पनी लिमिटेड के रूप में पंजीकत किया जाए

राकेश बंसल बेन्थर्स एलएलपी के नाम रं स्थापित होने वाली कंपनी का मुख्य उदेश्य स्टॉव ट्रेडिंग निवेश, सलाहकार सेवाएं और स्टॉक मार्केट पर किताबें लिखना और उन्हें बेचना है।

प्रस्तावित कंपनी के मसौदा झापन और संस्था वं अंतर्नियम की प्रति का निरीक्षण ब्लॉक सी 4 फ्लैट न 115 एसडीए होज खास, नई दिल्ली, दिल्ली-110016 में रिधत कार्यालय में किया जा सकता है। एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पर

आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति लिखित रूप में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक प्रति सहित, इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के शीतर रजिस्ट्रार, सेन्ट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), प्लॉट नं. 6,7,8, सैक्टर-5, आईएमटी मानेसर, गुरूग्राम, हरियाणा-122060 को भेज

> 1. राकेश कुमार बंसल 2. नम्रात बंसल

IMPORTANT*

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

इडियन बैंक Indian Bank 🎄 इलाहाबाद

गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर-गामा 1, जगत फार्म, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन [अधिनियम, 2002 का 54] के तहत इंडियन बैंक, लाडपुरा शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री बटुवा लाल शर्मा (कर्जदार एवं गारंटर) तथा श्रीमती प्रियंका शर्मा पत्नी श्री कुलदीप शर्मा (सह-कर्जदार एवं गारंटर) से यहां सूचना में उल्लिखित राशि 20.11.2023 तक रु. 13,03,738.00 (रुपये तेरह लाख तीन हजार सात सौ अड़तीस मात्र) तथा 21.11.2023 से भावी ब्याज सहित उस पर प्रभारों और लागतों का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 21.11.2023 को माँग सूचना निर्गत की थीं।

कर्जदार/गारंटर द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/गारंटर को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त अपनी शक्तियों के उपयोग में 3 फरवरी, 2024 को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/गारंटर और जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार 20.11.2023 तक रु. 13,03,738.00 (रुपये तेरह लाख तीन हजार सात सौ अड़तीस मात्र) तथा 21.11.2023 से भावी ब्याज सहित उस पर प्रभारों और लागतों के लिए इण्डियन बैंक, लाडपुरा शाखा के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमिन्त्रत किया जाता है अचल सम्पत्ति का विवरण

लीजहोल्ड आवासीय फ्लैट संख्या 605, तीसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, ब्लॉक/पॉकेट ए, सेक्टर एमयू-02, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, माप आवंटन संख्या बीएचएस10-89480 के तहत 40 वर्ग मीटर; संपत्ति की सीमाएं- उत्तर-पूर्व : फ्लैट नंबर 606, दक्षिण-पश्चिम- ग्राउंड फ्लोर पर खुला क्षेत्र; उत्तर-पश्चिम सामान्य क्षेत्र एवं फ्लैट संख्या 608; दक्षिण-पूर्व : भूतल पर खुला क्षेत्र

अधिकृत प्राधिकारी, इण्डियन बैंक

पुरुप संख्या आईएनसी-26 (कंपनियों के नियम 30 (निगम) नियम 2014 के अनुसार एक राज्य से दसरे राज्य में कंपनी के पंजीकत कार्यालय में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन केंद्र सरकार के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र खंडपीठ, दिल्ली कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा 4 और कंपनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30

मैसर्स वी.आर. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (CIN:U74899DL1994PTC058225) जेसका पंजीकृत कार्यालयः **बी—203, प्लॉट नं. 18**, सैक्टर-18, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में हैं इसके द्वारा आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र

प्रभावित होने की संभावना है, वह या तो एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर वितरित कर सकता है या अपनी आपत्तियों के पंजीकृत डाक द्वारा वितरित या भेज सकता है। क्षेत्रीय निदेशक के पते बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली — 110003. ईमेलः roc.delhi@mca.gov.in पर अपने हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित पते पर आवेदक कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ:

18, सैक्टर—18, द्वारका, नई दिल्ली—110075 आवेदक के लिए और उनकी और सं वी.आर. इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

पैरामाउंट कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : केएच-433, मौलसारी एवेन्यू, वेस्टेंड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037

दूरभाष : 91-11-45618800; फैक्स : 91-11-25893719-20, वेबसाइट : www.paramountcables.com

सीआईएन : L74899DL1994PLC061295

For the Indian Intelligent.

The Indian Express.

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित एकल एवं

समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

विवरण			Ų	কল			समेकित					
1/5/5/3/3/3		समाप्त तिमाई	Ì	समाप्त	नी माह	समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वी माह		समाप्त वर्ष
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	अलेखापरीवित	अलेखापरीवित	अलेखायहीवित	अलेखापरीचित	भलेखापरीचित	लेखापरीकित	अलेखापरीवित	अलेखापरीवित	अलेखापरीचित	अलेखापरीवित	अलेखापरीवित	रेखापरीवित
परिवातनों से कुल आय	27,534.18	25,028.20	21,808.93	73,616.82	59,438.84	79,646.65	28,425.17	25,243.51	21,808.93	74,723.12	59,438.84	79,646.65
वित्त लागतों के उपरांत परंतु आपवादिक मदों से पूर्व साधारण गतिविधियों से लाम/(हानि)	2,190.05	1,944.92	1,431.77	5,588.37	3,396.66	4,776.75	2,205.90	1,950.12	1,431.77	5,609.42	3,396.66	4,776.75
कर पूर्व साधारण गतिविधियाँ से लाम/(हानि)	2,190.05	1,944.92	1,431.77	5,588.37	3,396.66	4,776.75	2,205.90	1,950.12	1,431.77	5,609.42	3,396.66	4,776.75
कर उपरांत साधारण गतिविधियाँ से निवल लाम/(हानि)	2,190.05	1,944.92	1,431.77	5,588.37	3,396.66	4,776.75	2,202.69	1,948.92	1,431.77	5,605.01	3,396.66	4,776.75
अन्य व्यापक आय/(हानि)	8.87	8.87	14.64	26.61	43.92	35.49	8.87	8.87	14.64	26.61	43.92	35.49
कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाम/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय से समाविष्ट	2,198.92	1,953.79	1,446.41	5,614.98	3,440.58	4,812.24	2,211.56	1,957.79	1,446.41	5,631.62	3,440.58	4,812.24
प्रदत्त समता अंश पूंजी (अंकित मूल्य रु. 2/— प्रति समता अंश)	5,592.20	4,773.70	3,883.68	5,592.20	3,883.68	3,883.68	5,592.20	4,773.70	3,883.68	5,592.20	3,883.68	3,883.68
अन्य समता, पुनर्मूज्यांकन आरक्षित छोडकर						25,624.50						25,624.50
आय प्रति अंश (रु. 2/- प्रत्येक का) (अवार्षिकीकृत) :		1.00000	necessor	1000000	conc	400.000			50.0	22000		1000
(क) मूलभूत	0.80	0.86	0.72	2.38	1.73	2,40	0.81	0.86	0.72	2.39	1.73	2.40
(ख) तरलीकृत	0.80	0.86	0.72	2.38	1.73	2.40	0.81	0.86	0.72	2.39	1.73	2.40

उपरोक्त सारांस, सेबी (सुबीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टींक एक्सबेंज के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाडी एवं मी माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। त्रिमासिक अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट (www.paramountcables.com) पर तथा स्टॉक एक्सबेंज की वेबसाइटों अर्थात (www.nseindia.com तथा www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के द्वारा तथा उसकी ओर से

क्ते पैरामाउंट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

संजय अखवाल

अध्यक्ष एवं सीईओ बीआईएन : 00001788

एखान : नई दिल्ली

दिनांक: 03-02-2024

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-06

कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज.

उ०प्र० जल निगम (नगरीय),

03/416, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 Mob. 9415532397, 8004948806, 0522-4958621 E-mail ID- pmcdsunit6@gmail.com

निविदा सूचना सं० 117/टेण्डर कार्य/32 दिनांकः 02.02.2024

ई-निविदा सूचना

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद सीतापुर के निम्नानुसार विभिन्न ब्लाकों/स्थानो पर स्थित राजकीय विद्यालयों में जलापूर्ति, ट्वायलेट ब्लाक, अति0कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, मल्टीपरपज हाल एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 में यथोचित श्रेणी में निविदा सिचना तिथि तक निर्माण कार्य हेत् विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 15.02.2024 के अपरान्ह | 17.00 बजे तक ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 02.02.24 से दिनांक 15.02.2024 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार की e-procurement वेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है तथा ई-निविदा दिनांक 16.02.2024 को अपरान्ह 15.30 बजे कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-06, सी0एण्ड डी0एस0, उ०प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ में निविदा खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट www.cdsupjn.org एवं प्रोक्योमेन्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। समस्त शुद्धि पत्र (Corrigendum) https://etender.up.nic.in पर ही अपलोड किये जायेंगे, इनका पृथक से कोई प्रकाशन नहीं **किया जायेगा।** निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

31-10	11-17-1-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17				
क्र0	स्थल का नाम	एनआईटी सं0	जीएसटी	ईएमडी	
			सहित	फीस	अनु० लागत
			टेण्डर	रु0	लेबरसेस
			फीस	लाख	सहित एवं
S 35				में	जीएसटी रहि
1	राजकीय बालिका इण्टर कालेज,	97/टेण्डर	5900.00	1.46	72.86
	मिश्रिख, सीतापुर	कार्य/14			
2	राजकीय बालिका हाईस्कूल बढ़ैया,	दिनांक			
	ब्लाक-मिश्रिख, सीतापुर	31.01.2024			
3	राजकीय हाईस्कूल गुलरिहा, ब्लाक-	98/टेण्टर कार्य/15	3540.00	0.73	36.43
	मिश्रिख, सीतापुर	दिनांक			
		31.01.2024			
4	राजकीय बा०उ०मा०वि० पचदेवरा,	99/टेण्डर	3540.00	0.80	39.94
	ब्लाक-सकरन, सीतापुर	कार्य/16			
5	राजकीय उ०मा०वि० कोरार, ब्लाक-	दिनांक			
	पहला, सीतापुर	31.01.2024			
6	राजकीय हाईस्कूल टप्पाखजुरिया,	100/टेण्डर	5900.00	1.46	72.86
	ब्लाक-परसेडी, सीतापुर	कार्य/17			
7	राजकीय उ0मा0विद्यालय देवरीकैल,	दिनांक			
	ब्लाक-गोदलामऊ, सीतापुर	31.01.2004			
8	राजकीय इंटर कालेज जनुआ, ब्लाक-	101/टेण्डर	5900.00	1.81	90.62
	बिसवा सीतापुर	कार्य/18			
9	राजकीय उ0मा0वि0 रजवापुर, ब्लाक-	दिनांक			
	महोली, सीतापुर	31.01.2024			
10	राजकीय हाईस्कूल लैलखुर्द, ब्लाक-	102/टेण्डर	3540.00	0.73	36.43
	महमूदाबाद, सीतापुर	कार्य/19 दिनांक			
		31.01.2024			
11	राजकीय इण्टर कालेज, रामपुर मधुरा,	103/टेण्डर कार्य/	5900.00	1.01	50.68
	ब्लाक-रामपुर मधुरा, सीतापुर	20 दिनांक			
		31.01.2024			
12	राजकीय इण्टर कालेज, ब्लाक खैराबाद	104/टेण्डर	11803.00	2.14	106.99

हस्ता./-(राघवेन्द्र कुमार) परियोजना प्रबन्धक



कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-06

कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय),

03/416, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 Mob. 9415532397, 8004948806, 0522-4958621

E-mail ID- pmcdsunit6@gmail.com दिनांक: 02.02.2024

निविदा सूचना सं० 118/टेण्डर कार्य/33

ई-निविदा सूचना

अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम, की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद सीतापुर के निम्नानुसार विभिन्न ब्लाकों/स्थानो पर स्थित राजकीय विद्यालयों में जलापूर्ति, ट्वायलेट ब्लाक, अति०कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, मल्टीपरपज हाल एवं लाइब्रेरी के निर्माण कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 में यथोचित श्रेणी में निविदा सूचना तिथि तक निर्माण कार्य हेतु विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 15.02.2024 के अपरान्ह 17.00 बजे तक ई-निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं। उक्त कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र दिनांक 03.02.24 से दिनांक 19.02.2024 के मध्य उत्तर प्रदेश सरकार की e-procurement वेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते है तथा ई-निविदा दिनांक 20.02.2024 को अपरान्ह 15.30 बजे कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-06, सी0एण्ड डी0एस0, उ०प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ में निविदा खोली जायेगी।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण विभाग की बेवसाइट www.cdsupjn.org एवं प्रोक्योमेन्ट पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। समस्त शुद्धि पत्र (Corrigendum) https://etender.up.nic.in पर ही अपलोड किये जायेंगे, इनका पृथक से कोई प्रकाशन नहीं किया जायेगा। निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।

एनआईटी सं० | जीएसटी ईएमडी निविदा की |

स्थल का नाम

क्र0

Site of the site o	स्वल का गाम	एगआइटा सर	सहित टेण्डर फीस	फीस फीस रु0 लाख	अनु० लागत लेबरसेस सहित एवं
1	राजकीय इण्टर कालेज, गनेशपुर, सीतापुर	109/टेण्डर कार्य/24 दिनांक	5900.00	में 1.81	जीएसटी रहित 90.62
2	पं0 दीन दयाल उपाध्याय इ0का0 पचदेवरा, चौबेपुर, सीतापुर				
3	राजकीय हा0स्कूल, विलासपुर, सीतापुर	110/टेण्डर कार्य/25 दिनांक 02.02.2024	3540.00	0.73	36.43
4	राजकीय बा० उ०मा०वि० विशुनपुर, सीतापुर	111/टेण्डर कार्य/26 दिनांक	5900.00	1.46	72.86
5	राजकीय बा0उ0मा0वि0 क्योटिबदुल्ला, सीतापुर	02.02.2024			21 v
6	राजकीय हाईस्कूल, कुचलाई, सीतापुर	112/टेण्डर कार्य/27 दिनांक 02.02.2024	3540.00	0.73	36.43
7	राजकीय हाईस्कूल, पिपराकला, सीतापुर	113/टेण्डर कार्य/28 दिनांक 02.02.2024	3540.00	0.80	39.94
8	राजकीय बालिका इ0का0 मोहम्मदापुर-2, सीतापुर	114/टेण्डर कार्य/29 दिनांक	2360.00	0.29	10.53
9	राजकीय हाईस्कूल, सलारपुर दारापुर, सीतापुर	02.02.2024			
10					
11	राजकीय हाईस्कूल, कोदौरा, सीतापुर	115/टेण्डर कार्य/30 दिनांक 02.02.2024	3540.00	0.73	36.43

हस्ता./-

(राघवेन्द्र कुमार) परियोजना प्रबन्धक इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट 15, 6ठी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002, शास्त्रा **Home Loans** कार्यालयः प्रथम तल, एससीओ 15, अम्बाला रोड, जिरकपुर-140603

जयकि, अधोहरताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्गठन एवं (प्रतिभृति) हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इण्डिया शेल्टर फाइनेंस एण्ड कार्पोरेशन लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदारों तथा सम्पत्ति के स्वामी से/आश्वरित कथित सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर यहाँ आगे उल्लिखित खाते के सम्मुख लिखित तिथि पर राशि का पुनर्भगतान करने को कहते हुए एक माँग सुचना जारी की थी। जैसा कि सम्पत्ति के स्थामी तथा अन्य राशि के पुनर्पुगतान में असफल रहे अतः एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहरताक्षरी ने कथित निथमों के नियम 8 एवं ९ के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है। अब कर्जदार को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति/यों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति/यों के साथ कोई संख्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागतीं आदि के लिए इण्डिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। 1 8 000 8 01 00

कजेदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्थामी) तथा ऋण खाता संख्या	प्रभारित∕श्वेद्यक सम्पति का विव्यरण (भिम्मलिखित से निर्मित सम्पत्ति का समस्त भाग)	भाग सूचना को तिथि, भाग सूचना की तिथि तक चकाया राशि	साकेशिक कश्जा की तिथि	
श्री/श्रीमती मीनाश्ची श्री/श्रीमती अश्चय कुमार दोनों निवासी : मकान नं. 3001, घाटीवाला पित्रीर निकट आईटीआई कल्लिय पंचकुला, हरियाणा-134102 ऋण खाता सं. LA11CLLONS000005028343	सम्पत्ति यिक्की विलेख संख्या 3266 दिनांक 12/01/2018 का समस्त भाग, खेवट/खतीनी नंबर 71/117, खसरा नंबर 154(9-14), किसा 01, इदबरत नंबर 153, माप 100 वर्ग गज, गांव विटना पिजीर कालका 134101, पंचकुला, हरियाणा में स्थित। सीमा:- सामने- 15 फीट सड़क, पीछे- अन्य प्लॉट, दाएं- अन्य प्लॉट, बाएं- अन्य प्लॉट।	रः. 838464.94/- (रुपये आट लाख अइतीस हजार चार सी चींसट एवं चीरानथे पैसे मात्र) तिथि 10 अप्रैल, 2023 तक तथा 11 अप्रैल, 2023 से ब्याज एवं भुगतान की	31/01/2024 (सांकेविक कश्या)	

(P) 0124-4598749, (W) www.affle.com, Email: compliance@affle.com CIN: L65990DL1994PLC408172

FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

December 31, ended December December 31, March 31, **Particulars** 2023 31, 2023 2022 2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 5,088.75 13,665.26 3,925.51 14,882.80 833.80 2,266.46 2,822.62 800.70 2,454.66 768.16 2,097.72 691.14 726.51 2,082.03 720.34 2,893.16 280.19 280.19 266.35 266.35 14,384.16

periods / year Paid-up equity share capital (face value Rs 2/- per equity share) Other Equity for the year Earnings per equity share (face value Rs 2/- per equity share) Basic: 5.72 15.63 5.19 18.43 5.72 15.63 5.19 18.43 Diluted: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its

meeting held on February 03, 2024 and subjected to limited review by the statutory auditors of the Company. 2. Key standalone financial information:

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulrements) Regulations, 2015 as

The full format of the quarterly financial results are available to the investors on the websites of stock exchange, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Company i.e. www.affle.com.

Date: February 03, 2024

कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-40013 शाखा कार्यालय : टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ७वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्शियल हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, ११ एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001, उ.प्र.

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9(1) के प्रावधानों तथा वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना जनसामान्य को और विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार/सह–कर्जदारों अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदार) को एतद्वारा सुचना दी जात

है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के पास नीचे वर्णित बंधक अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकार्र द्वारा कर लिया गया है, कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों से कुल राशि की वसली हेतु ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है जैसे है'' तथा ''जो भी है वहीं है'' के आधार प 21.02.2024 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि नीचे उल्लिखित है।

अप. की जायेगी। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु ईएमडी के डिमाण्ड ड्राफ्ट वाला मुहरबन्द लिफाफा टीसीएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी के पास शाखा पता टाट कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 7वीं मंजिल, हलवासिया कॉमर्शियल हाउस, हबीबुल्लाह एस्टेट, 11 एम.जी. मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उ.प्र.-226001 20.02.2024 को 5 बजे अप. तक जमा करना है।

क्र.	ऋण	कर्जदार(रों)∕सह-	मांग सूचना के	आरक्षित	धरोहर	धरोहर
सं.	खाता सं.	कर्जदार(रों)⁄विधिक	अनुसार गशि	मूल्य	राशि	राशि
ı	तथा	उत्तराधिकारी(यों)⁄				
	शाखा	विधिक प्रतिनिधि/				
		जमानती(यों) के नाम				
1.	TCHH	हृति फूड संता एंड टेक्नोलॉर्ज	रु. 25,30,613/- (रुपये पच्चीस लाख तीस	रु.	₹.	रु.
	F0347	प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशको	हजार छः सौ तेरह मात्र) आपके द्वारा ऋण खाता		14,50,000/-	14,50,000/-
ı	00010	श्री सागर शुक्ला पुत्र श्री अनिल		(रुपये एक	(रुपये चौदह	(रुपये चौदह
ı	00649	शुक्ला उर्फ अनिल कुमार शुक्ल	तहत बकाया और देय है और रुपये	करोड़ पैंतालीस	लाख पचास	लाख पचास
ı	97 &	के माध्यम से, श्री अनिल शुक्ल	61,93,347/- (रुपये इकसठ लाख तिरानवे	लाख मात्र)	हजार मात्र)	हजार मात्र)
ı	10512	उर्फ अनिल कुमार शुक्ला पुत्र श्री	हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) आपके द्वारा ऋण			
ı	473 & 10679	राम शंकर शुक्ला, श्रीमती रंजन	खाता संख्या 10679034 के तहत बकाया और			
	034	शुक्ल पत्नी श्री अनिल शुक्ल	देय है और रु. 94,96,487/- (रुपये चौरानवे			
		उर्फ अनिल कुमार शुक्ला				
			लाख् छियानवे हजार चार सौ सत्तासी मात्र)			
			आपके द्वारा ऋण खाता संख्या 10512473 के			
			तहत बकाया और देय है, यानी कुल			
			रु. 1,82,20,446/- (रुपये एक करोड़ बयासी			
ı			लाख बीस हजार चार सौ छियालीस मात्र),			
ı			09-06-2022			

मंजिल का निर्माण, विवेक खंड, गोमती नगर, वार्ड - राजीव खंड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में स्थित, बिक्री विलेख में उल्लिखित सर्भ सामान्य सुविधाओं के साथ। सीमाएं:- पूर्व:-12 मीटर चौड़ी रोड, पश्चिम:- प्लॉट नं. 03/184, उत्तर:- मकान नं. 3/186, दक्षिण:

बिक्री में आम जनता को व्यक्तिगत रूप से निविदा जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) को एतद्वारा इस सूचना वे

प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित कुल बकाया भुगतान करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है जिसमें असफल रहने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री अनुसूची के अनुसार कर दी जायेगी। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि) ज कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास नीलामी की तिथि से पूर्व जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी।

ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे।

यह बिक्री प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित शर्तों के अधीन होगी। यह ई-नीलामी बिक्री प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल https://DisposalHub.com के माध्यम से 21.02.2023 को 2.00 बजे

लिंक देखें। 15. कृपया लिंक https://www.tatacapital.com/property-disposal.html भी देखें।

अप से 3.00 बजे अप के बीच आयोजित की जायेगी।

नियम एवं शर्तें : 1. संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किये गये हैं, लेकिन इस उद्घोषणा में किर्स गलती अथवा खामी के लिये अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो प्रतिभूत लेनदा के विवेकानुसार लॉट को फिर से नीलामी पर प्रस्तुत किया जायेगा। 2. आरक्षित मूल्य से कम में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) होगी। 4. सम्पत्ति के विक्रय हेतु जमा की गयी समस्त संविदाओं के साथ ऊपर लिखे के अनुसार जमा धरोहर राशि शाखा पता में देय ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। असफल संविदाकारों को नीलामी के पश्चात डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस कर दिया जायेगा। एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी जमा करने के लिए कृपया अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें। 5. उच्चतम संविदाकार को सफल संविदाकार घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह संविदा के लिए वैधानिक रूप से पात्र हो और बशर्ते कि उसके द्वारा संविदा की राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से इतना अपर्याप्त हो कि यह ऐसा करने के लिए अपरामर्शनीय हो तं 'अधिकृत प्राधिकारी' का विशेषाधिकार होगा कि वह उच्चतम संविदा की स्वीकृति को मना कर दे। 6. कारणों को अभिलिखित करने हेतु, 'अधिकृत प्राधिकारी विक्रय को स्थगित/अनिरन्तर करने का विशेषाधिकार रखेगा। 7. सम्पत्ति का निरीक्षण 12.02.2024 को 11 बजे प्रातः से 5.00 बजे सायं के बीच किया ज सकता है। 8. सफल क्रेता घोषित किये गये व्यक्ति को ऐसी उद्घोषणा के तुरन्त बाद क्रय राशि/संविदा जिसमें ईएमडी राशि शामिल है, का पच्चीस प्रतिशत 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा और इस राशि के जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति को निजी सन्धि द्वारा पुन नीलामी/बिक्री के लिए रखा जायेगा। 9. यदि उपर्युक्त के अनुसार प्रारम्भिक राशि अदा कर दी जाती है तो क्रय राशि की शेष देय राशि क्रेता द्वारा सम्पत्ति वे विक्रय की पुष्टि की तिथि के 15वें दिन को या इससे पूर्व 'अधिकृत प्राधिकारी' के पास जमा करनी होगी, यदि उस 15वें दिन रविवार या कोई अन्य अवकाश होता है तो इसे 15वें दिन के बाद पहले कार्यालयी दिन पर जमा करनी होगी। 10. उपरोक्त अवधि में भुगतान में चूक करने पर निजी सन्धि द्वारा सम्पत्ति की फिर से नीलामी/बिक्री की जायेगी। ईएमडी सहित जमा की गई राशि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा चुक करने वाले क्रेता उस सम्पत्ति के सभी दावों से वंचित हो जाएंगे। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्पत्ति के प्रति देय अधिभारों की जानकारी का विवरण शुन्य, सम्पत्ति पर रखे गये दावे अथवा उस प्रकृति एवं मुल्य के अन्य ज्ञात विवरणः शुन्य। इच्छुक संविदाकार को सम्पत्ति कर, बिजली आदि के विधिक बकार्य सहित सम्पत्ति पर ऋणभारों से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है। 12. अन्य विवरणों अथवा ऑनलाइन ई–नीलामी प्रक्रिय पर प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता #203, दूसरी मंजिल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 एवं 5, क्रॉसिंग रेलवे रोड, गुरुग्राम-122 006 से इसके मोबाइल नं. +91 97100 29933, +91 98100 29926, दूरभाष नं. +91 124 4 233 933, ई-मेल आईडी : CSD@disposalhub.com अथवा मनीष बंसल से ई-मेल आईडी : Manish.Bansal@tatacapital.com. अधिकृत प्राधिकारी तथ मोबाइल नं. 8588983696 से सम्पर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी पृछताछ ह्वाट्सएप नम्बर : 9999078669 पर करें। 13. उच्चतम संविदाकार को उच्चतम

कृपया ध्यान दें - टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी भी दलाल/एजेंट को नियुक्त नहीं किया है। इच्छुक पार्टियों को इस मामले में सभी प्रश्नों और पूछताछ के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए। ह./- अधिकृत प्राधिकारी, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान : लखनऊ, तिथि : 05.02.2024

घोषित संविदा राशि पर 1% टीडीएस प्रयोज्य एवं देय होगा। यह भुगतान उच्चतम संविदाकार द्वारा स्वामी/कर्जदार(रों) के पैन में जमा करनी होगी तथा चालान

की प्रति हमारी कम्पनी के पास जमा करनी होगी। 14. उपर्युक्त विवरण के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट http://suri.ll/pvebb में प्रावधानित

www.readwhere.com

13 राजकीय इण्टर कालेज मछरेहटा

ब्लाक-मछरेहटा सीतापुर

कार्य/21

दिनांक

31.01.2024

आवेदक का नाम

दिनांक : 03.02.2024

स्थान : ग्रेटर नोएडा

प्रदेश-201308 ALLAHABAD कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

की उप-धारा (5) के खंड (ए) के मामले में

पंजीकृत कार्यालय का पताः बी-203, प्लॉट नं

सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज में परिवर्तन की पुष्टि के लिए असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को **'राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'हरियाणा राज्य' बदलने में सक्षम बनाने के लिए शुक्रवार, 29 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया । कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन

हस्ता/-कीआईएन: 00506460

दिनांक : 03.02.2024 साहल बख्शी (निदेशक)

IndiaShelter

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS (Amount in Rs million, unless otherwise stated

Quarter ended Nine Months | Quarter ended

Quarter ended Nine Months | Quarter ended | Year ended

Particulars	December 31, 2023 (Unaudited)	ended December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
Total income	1,494.13	4,311.62	1,441.51	5,173.66
Net profit for the periods / year	185.08	522.63	214.75	668.78
Total comprehensive income for the periods / year	184.22	521.90	214.65	668.13
3. The above is an extract of the detailed for				tock Exchange

By Order of the Board For Affle (India) Limited

> Anuj Khanna Sohum Managing Director & Chief Executive Officer

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि बिक्री के किसी आस्थगन/असततता की अनुपस्थिति में, आस्ति/सम्पत्ति की बिक्री ई–नीलामी द्वारा कथित 21.02.2024 को 2 बजे

प्रति	भूत आस्ति	/अचल सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है	उ जैसे है स्थिति'' में नीचे वर्णित संक्षिप्त विवरणों के अनु	पुसार की जायेगी :		
क्र. सं.		कर्जदार(रों)/सह- कर्जदार(रों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधि/ जमानती(यों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	धरोहर राशि
1.	TCHH F0347 00010 00649 97 & 10512 473 & 10679 034	प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशकों श्री सागर शुक्ला पुत्र श्री अनिल	हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) आपके द्वारा ऋण	1,45,00,000/- (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र)	रु. 14,50,000/- (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र)	रू. 14,50,000 (रुपये चौ लाख पच हजार माः

अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति वाणिज्यिक भृखंड संख्या 3/187 का समस्त भाग, 174.72 वर्ग गज की माप पर पहली